

अमर उजाला

Rajasthan: बीकानेर में नकली डीएपी बनाने का जखीरा पकड़ा, 439 कट्टे जब्त, यूपी से लाई गई थी खाद

न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, बीकानेर Published by: अंकिता विश्वकर्मा Updated Wed, 19 Oct 2022 08:01 AM IST

सार

कृषि विभाग की टीम ने मंगलवार को औचक कार्रवाई करते हुए नकली डीएपी बनाने का जखीरा जब्त किया इस दौरान टीम ने 439 कट्टे मौके से जब्त किए हैं। नकली डीएपी खाद मिनरल ग्रेन्यूल्स के नाम से हापुड़ (यूपी) से आया बताया गया।



बीकानेर जिले के नोखा नगर के दासनू में कृषि विभाग की टीम ने मंगलवार को औचक कार्रवाई करते हुए नकली डीएपी बनाने का जखीरा जब्त किया इस दौरान टीम ने 439 कट्टे मौके से जब्त किए हैं। उपनिदेशक कृषि कैलाश चौधरी ने बताया कि जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल के निर्देशानुसार यह कार्रवाई की गई। इसके लिए सहायक निदेशक अमर सिंह गिल के नेतृत्व में कृषि अधिकारी सुभाष चन्द्र ने नकली डीएपी बनाने का जखीरा पकड़ा। कृषि अधिकारी मुकेश गहलोत, सहायक कृषि अधिकारी राकेश व राजेश तथा कृषि पर्यवेक्षक प्रियंका टीम में शामिल रहे।

हापुड़ से लाई गई थी नकली खाद

नकली डीएपी बनाने का यह कारखाना काकड़ा निवासी महावीर पुत्र बंशीलाल विश्रोई द्वारा संचालित किया जा रहा था। मौके पर डीएपी बनाने के 439 कट्टे टीम ने सीज किए। इसके अतिरिक्त मौके पर लगभग एक हजार खाली थैले बरामद हुए, जो कि उत्तम डीएपी व इफको डीएपी ब्रांड के हैं, जिनमें नकली डीएपी भरा जा रहा था। नकली डीएपी खाद मिनरल ग्रेन्यूल्स के नाम से हापुड़ (यूपी) से आया बताया गया।

Source: <https://www.amarujala.com/rajasthan/caught-making-fake-dap-in-bikaner-rajasthan-439-bags-seized>